



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III — Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]
No. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2004/फाल्गुन 27, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2004/PHALGUNA 27, 1925

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केंद्रीय कार्यालय)

(सचिव विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2004

भारतीय रिज़र्व बैंक, सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 24 में संशोधन

सं. एसवाईडी-1569/2.5.09/2003-2004.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्र सरकार की पूर्वस्वीकृति से एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 संशोधित करने के लिए निम्नानुसार विनियम करता है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिनांक 12 फरवरी, 2004 से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में विनियम 24 के मौजूदा उप-विनियम (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रयोग में लाये जायेंगे :

24 (i) अधिनियम की धारा 8(1)(ख), 8(1)(ग) और 12(4) के अंतर्गत नामित निदेशकों को केन्द्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक और केन्द्रीय बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक, जिसमें वे भाग लेते हैं, के लिए क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये की फीस प्राप्त होगी।

24 (ii) स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को, स्थानीय बोर्ड की बैठक में उपस्थित रहने पर प्रति बैठक 10,000 रुपये फीस प्राप्त होगी।

वाय. एस. पी. थोरात, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-3/4/असाधा./38/03]

RESERVE BANK OF INDIA**(Central Office)****(Secretary's Department)****NOTIFICATION****Mumbai, the 16th March, 2004****Amendment to Regulation 24 of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949**

No. SYD-1569/2.5.09/2003-2004.— In exercise of the powers conferred by Section 58(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely :

1. (1) These Regulations may be called as the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2004.
- (2) These Regulations shall come into force on 12th February, 2004.
2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, for the existing Sub-Regulations, (i) and (ii) of Regulation 24 the following shall be substituted :
 - 24 (i) Directors nominated under Section 8(1)(b), 8(1)(c) and 12(4) of the Act shall receive a fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Central Board which they attend and Rs. 5,000/- for each meeting of the Committee of the Central Board which they attend.
 - 24 (ii) Members of Local Board shall receive a fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Local Board which they attend.

Y. S. P. THORAT, Executive Director

[ADVT-3/4/Exty./38/03]